

प्रैस नोट थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।

थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान 02 ड्रम अवैध देशी शराब केमिकल, रैपर, होलोग्राम, ढक्कन, तीव्रता मापक उपकरण व घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14-10-2021 को चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक छोटा हाथी को रोकने का प्रयास किया तो चालक द्वारा गाडी को भगाने का प्रयास किया गया । पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर चालक गाडी छोडकर खेतों में खडी बाजरे की फसल में भाग गया जिसको पुलिस टीम द्वारा काफी तलाश किया गया परन्तु वह मिल नहीं पाया । गाडी की तलाशी लेने पर गाडी में रखे प्लास्टिक के दो ड्रम लगभग 400 लीटर अवैध देशी शराब तैयार करने वाला केमिकल, 350 खाली पौआ देशी शराब, 350 रैपर फाईटर ब्राण्ड देशी शराब, 350 पौआ ढक्कन व नकल क्यूआर कोड के होलोग्राम तथा शराब की तीव्रता मापने वाले उपकरण बरामद हुये । बरामदगी के आधार पर अज्ञात गाडी चालक व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना नारखी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

बरामदगी विवरण:-

1. दो अदद प्लास्टिक ड्रम अवैध देशी शराब केमिकल से भरे हुये लगभग 400 लीटर
2. देशी शराब के खाली पौआ - 350
3. देशी शराब रैपर फाईटर ब्राण्ड - 350
4. देशी शराब पौआ ढक्कन waye मार्का - 350
5. शराब तीव्रता मापक उपकरण - 02
6. घटना में प्रयुक्त गाडी छोटा हाथी बिना नम्बर प्लेट

भागे हुये अभियुक्तगण:-

1. छोटा हाथी का चालक नाम व पता अज्ञात ।
2. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 361/2021 धारा 60ए/63/72 आब0 एक्ट व 420/467/468/471 भादवि थाना नारखी ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्र0नि0 शिव कुमार चौहान थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।
- 2.व0उ0नि0 श्री हरस्वरूप सिंह थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।
4. का0 1449 केशराम सिंह थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।
5. का0 1472 जावेद सैफी थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।